

तुरंत रिलीज के लिए

## सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने मेयर की COVID-19 इकोनॉमिक स्पोर्ट एंड रिकवरी और सोशल स्पोर्ट टास्क फोर्सिज की घोषणा की

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (17 मार्च, 2020) – ब्रैम्पटन काउंसिल (Brampton Council), पूरे शहर में COVID-19 (सी.ओ.वी.आई.डी. -19) की स्थिति के दौरान लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। आज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने स्थानीय अर्थव्यवस्था और कमज़ोर समुदायों को सहयोग देने के लिए दो विशेष टास्क फोर्सिज: मेयर की COVID-19 इकोनॉमिक स्पोर्ट एंड रिकवरी टास्क फोर्स (Economic Support and Recovery Task Force) और मेयर की COVID-19 सोशल स्पोर्ट टास्क फोर्स (Social Support Task Force) की घोषणा की।

ये दोनों ग्रुप, प्रभावी प्रतिक्रियाओं में समन्वय करने के लिए, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के एमरजेंसी ऑपरेशंस सेंटर (Emergency Operations Centre) और सिटी के स्टाफ के साथ मिलकर काम करेंगे।

### मेयर की COVID-19 इकोनॉमिक स्पोर्ट टास्क फोर्स

इस ग्रुप के को-चेयर, वार्ड्स 2 और 6 के रीजनल काउंसलर माइकल पलेशी (Michael Palleschi), और वार्ड्स 1 और 5 के रीजनल काउंसलर पॉल विसेंट (Paul Vicente) होंगे। ब्रैम्पटन में सिफारिशों के लिए समन्वय करने और कारोबार संबंधी राहत के प्रयासों को सहयोग देने के उपाय करना, इस ग्रुप की जिम्मेदारी होगी।

काउंसिल, डाउनटाउन बी.आई.ए. (Downtown BIA) और ब्रैम्पटन बोर्ड ऑफ ट्रेड (Brampton Board of Trade) सहित, स्थानीय स्टेकहोल्डर्स के साथ मिलकर इन प्रयासों पर काम करेगी।

### मेयर की COVID-19 सोशल स्पोर्ट टास्क फोर्स

इस ग्रुप के को-चेयर, वार्ड्स 1 और 5 की रीजनल काउंसलर रोएना सैंटोस (Rowena Santos), और वार्ड्स 3 और 4 के रीजनल काउंसलर जेफ बोमैन (Jeff Bowman) होंगे। यह टास्क फोर्स, ब्रैम्पटन के कमज़ोर समुदायों को आवश्यक सामाजिक सहयोग प्रदान करेगी। यह देखेगी कि उन्हें बेघर होने का जोखिम तो नहीं है। साथ ही यह भोजन संबंधी सुरक्षा के लिए दी गई सिफारिशों के मुताबिक काम करेगी।

सिटी की सेवाओं के बारे में बिल्कुल ताज़ा जानकारी और अक्सर पूछे जाने वाले सवालों (FAQs), और फेसिलिटी और प्रोग्रामिंग बंद होने के बारे में जानकारी के लिए, कृपया वेबसाइट: [www.brampton.ca/covid19](http://www.brampton.ca/covid19) पर जाएं।

पील पब्लिक हेल्थ द्वारा दी जाने वाली ताज़ा जानकारी के लिए: [www.peelregion.ca/coronavirus](http://www.peelregion.ca/coronavirus) पर जाएं।

हवाला

“हालांकि ब्रैम्पटन के निवासियों और कर्मचारियों को सुरक्षित रखने के लिए सिटी हॉल बंद रहेगा, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए काउंसिल लगातार काम कर रही है कि हम स्थानीय अर्थव्यवस्था और कमज़ोर समुदायों को सहयोग देने के लिए साथ मिलकर काम रहे हैं। अपने स्टैकहोल्डर्स के साथ मिलकर, हम ब्रैम्पटन में COVID-19 के प्रभाव को कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

**मीडिया संपर्क**

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोआर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)